

2nd May, 2019

BSE Ltd. Corporate Relationship Department 1st Floor New Trading Rotunda Building, P J Towers Dalal Street Fort, Mumbai – 400001	National Stock Exchange of India Ltd Listing Department, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051
Scrip Code – 530517	Scrip Code – RELAXO

Subject: Newspaper Advertisement of Notice of Board Meeting schedule to be held on 10th day of May,2019

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper advertisement of Notice of Board Meeting which is scheduled to be held on 10th day of May, 2019 to consider, review, approve and take on record the Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2019 published in **Financial Express** (English) and **Jansatta** (vernacular), Delhi Edition on **1st May, 2019**.

Kindly take the above information on record and acknowledge the same.

Thanking You,

Yours Sincerely,
For **Relaxo Footwears Limited**



Vikas Kumar Tak
Company Secretary

Encl. as above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700
Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com
CIN L74899DL1984PLC019097



NOTICE

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT ('SID') / KEY INFORMATION MEMORANDUM ('KIM') OF ALL THE SCHEMES OF AXIS MUTUAL FUND AND STATEMENT OF THE FINANCIAL INFORMATION (SAI) OF AXIS MUTUAL FUND (THE FUND)

Investors are requested to kindly take note of additional contact number viz. '8108622211' for investor related services of Axis Asset Management Company Ltd. with effect from May 01, 2019.

In view of the above, the necessary changes will be carried out, wherever required. All other terms & conditions of SAI of the Fund, SID / KIM of above mentioned Scheme(s) of the Fund will remain unchanged. This notice cum addendum shall form an integral part of SAI of the Fund, SID / KIM of the above mentioned scheme(s) of the Fund. Investors are requested to kindly take note of the above.

For Axis Asset Management Company Limited (CIN - U65991MH2009PLC189558) (Investment Manager to Axis Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : April 30, 2019
No. : 09/2019-20

Statutory Details: Axis Mutual Fund has been established as a Trustee under the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability restricted to ₹ 1 Lakh). Trustee: Axis Mutual Fund Trustee Limited Investment Manager: Axis Asset Management Company Limited (the AMC) Risk Factor: Axis Bank Ltd. is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the schemes. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

The RESPONSIBLE Mutual Fund



Axis House, First Floor, C2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, India. TEL : (022) 4325-5161, FAX : (022) 4325-5199, EMAIL : customerservice@axismf.com, WEBSITE : www.axismf.com, EasyCall : 1800 221 322 or 1800 3000 3300

VENUS INDIA ASSET-FINANCE PRIVATE LIMITED
Regd. Office : 198/12-13, 2nd Floor, Ramesh Market, East of Kailash, New Delhi - 110065
CIN No. U65921DL1996PTC081630

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

S. No.	Particulars	5 months ended 31 March, 2019		Year to date figures for current period ended 31 March, 2019		Previous year ended 31 March, 2018	
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Audited
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Revenue from operations	266,794,467	211,064,178	516,270,800	388,886,362	640,529	640,529
2	Interest income	-	-	-	-	-	-
3	Other income	-	-	-	-	-	-
4	Total revenue (1+2+3)	266,794,467	211,064,178	516,270,800	388,886,362	640,529	640,529
5	Expenses						
	Employee benefits expense	25,130,200	28,238,979	42,218,016	42,428,172	-	-
	Finance costs	91,067,538	42,746,686	161,649,622	66,918,571	-	-
	Depreciation expense	1,637,972	2,277,069	3,492,435	4,147,374	-	-
	Other expenses	71,542,879	17,011,891	96,281,492	46,986,330	-	-
6	Total expenses	189,598,589	90,274,625	303,641,565	159,480,447	-	-
7	Profit before tax (3-4)	77,195,878	120,789,553	212,629,235	230,405,915	-	-
8	Tax expense						
	Current tax	22,084,200	34,367,500	61,616,300	67,640,400	-	-
	Tax expense pertaining to earlier years	-	415,745	-	415,745	-	-
	Deferred tax expense/(credit)	(331,383)	(969,518)	(1,290,326)	(4,321,694)	-	-
9	Total tax expense	21,752,817	33,813,727	60,325,974	63,734,451	-	-
10	Profit for the year (5-9)	55,443,065	86,975,826	152,303,261	166,671,464	-	-
11	Reserve for share premium	-	-	976,196,320	1,018,027,650	-	-
12	Reserve excluding Revaluation Reserves	-	-	976,196,320	1,018,027,650	-	-
13	Earnings per share						
	Basic and diluted earning per share of Rs 10/- (Face value Not annualised for half years)	0.55	0.85	1.50	1.63	-	-
14	Non-Performing Assets (NPA) Ratios						
	a) Gross Non-Performing Assets (in Rs.)	93,463,889	140,000,000	93,463,889	140,000,000	-	-
	b) Net Non-Performing Assets (in Rs.)	64,771,111	112,000,000	64,771,111	112,000,000	-	-
	c) Gross NPA (%)	2.79%	6.63%	2.79%	5.03%	-	-
	d) Net NPA (%)	1.95%	4.06%	1.95%	4.06%	-	-
	e) Return on Assets	1.48%	2.90%	4.10%	5.55%	-	-
	f) Capital Adequacy Ratio	54.51%	67.84%	54.51%	67.84%	-	-

Notes to the Financial Results:
1. These results have been reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of the Board of Directors held on 30 April 2019.
2. Figures for six months ended 31 March 2019 represent the balancing figures between audited figures for the financial year ended 31 March 2019 and published reviewed year to date figures upto first six months of the financial year 2018-19.
3. Figures for six months ended 31 March 2018 represent the balancing figures between audited figures for the financial year ended 31 March 2018 and published reviewed year to date figures upto first six months of the financial year 2017-18.
4. During the year ended 31 March 2019, 4,162,933 equity shares were bought back at a price of Rs. 35.66 per share (including share premium of Rs. 25.86 per share).
5. Figures for the prior year/period have been regrouped and/or reclassified wherever considered necessary.
For and on behalf of the Board of Directors
Venus India Asset-Finance Private Limited
Nain Kumar Gupta
Date : 30 April 2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India DEMAND NOTICE 13(2) OF SECURITISATION ACT 2002

1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
BRANCH OFFICE: LRPG, SAHIBABAD, GHAZIABAD, U.P.-201005
This Demand Notice is hereby given under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 here in after calling upon the under mentioned Borrowers / Guarantors to repay, the Amounts outstanding for the Credit Facilities granted to them / on their Guarantee, within 60 days from the date of this Notice. If you fail to repay to the Bank the below mentioned amount with further interest and incidental expenses, costs etc. in terms of this notice u/s 13(2) of the Act, the Bank will exercise all or any of the rights detailed under Sub-Section (4) of Section 13 and under other applicable provisions of the said Act. You are also put on notice that in terms of sub-section 4 of Section 13 you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets detailed below of this notice without obtaining written consent of the Bank. The details of the account and Secured Assets alongwith Amount Outstanding is given below:-
SCHEDULE OF THE IMMOVABLE PROPERTY & OTHER DETAILS

S. No.	Name of Borrower/ and Guarantor	Description of the Secured Assets	Date & Amount of 13(2) Notice
1.	BORROWER: GANESH SAHU, S/O. BAIDYA NATH SAHU CO-BORROWER: Nath Sahu, S/o. Baidya Nath Sahu, Flat No. GF 1 (Ground Floor) Plot B 7/2 DLF Ankur Vihar, Loni, Ghaziabad, U.P.-201102 GUARANTOR: RAJESH KUMAR, S/O. CDP JAISWAL, A-83, SLF Ved Vihar, Loni, Ghaziabad, U.P.-201102.	Equitable mortgage of all that part and parcel of property in the name of Mr. Ganesh Sahu registered at document No. 47180, Bahi No. 1, Jld No. 26424 Pages 101 to 162 dated 13/12/2013. Sub Register (forth) Ghaziabad, U.P. Property Address: Flat No. GF 1 (Ground Floor) Front Side, MIG, without Roof Right at Plot No B 7/2, DLF Ankur Vihar Village Sadulabad District - Ghaziabad, U.P. Area Total 65.08 Sq. mtr. Property owned by Mr. Ganesh Sahu S/o. Baidya Nath Sahu. Bounded by: East: Road 9 mtr. wide West: Others property North: Plot B 7/3 South: Plot B 7/1	30.04.2019 Rs. 10,67,320/- due to us as on 18.04.2019 with further interest and other charges w.e.f. 18.04.2019 at the contracted rate until payment in full within 60 days from this notice.

PLEASE TAKE NOTE THAT ALL OUR DEMAND NOTICES ISSUED EARLIER STANDS WITHDRAWN
The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to you to redeem the secured assets.
PLACE: GHAZIABAD, U.P. Authorized Officer, Central Bank of India, Ghaziabad, U.P. DATE: 18/04/2019



RELiance NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED
(CIN - L65910MH1995PLC220793)
Registered Office: Reliance Centre, 7th Floor, Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400 055. Tel No. +91 22 3303 1000 • Fax No. +91 22 3303 7662
Email: Rnam.investorrelation@relianceada.com • www.reliance mutual.com

1. Extract from the Consolidated Financial Results of Reliance Nippon Life Asset Management Limited for the quarter and year ended March 31, 2019
(Rs. in crore except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31-Mar-19	31-Mar-18	31-Mar-19	31-Mar-18
		Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Revenue from Operations	343.22	438.06	1,478.64	1,591.77
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	212.08	153.72	700.24	655.60
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	212.08	153.72	700.24	655.60
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) attributable to owners of the Company	151.08	112.61	486.09	455.74
5.	Total Comprehensive income for the quarter attributable to owners of the Company	151.18	112.39	483.92	456.75
6.	Share Capital	612.00	612.00	612.00	612.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	1,958.02	1,753.31
8.	Earnings per Share (Basic & Diluted) (Face Value of Rs. 10/- each)				
	(i) Basic (Rs.)	2.47	1.89	7.94	7.63
	(ii) Diluted (Rs.)	2.47	1.88	7.94	7.62

2. Extract from the Standalone Financial Results of Reliance Nippon Life Asset Management Limited for the quarter and year ended March 31, 2019
(Rs. in crore except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31-Mar-19	31-Mar-18	31-Mar-19	31-Mar-18
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Revenue from Operations	323.94	412.18	1,415.26	1,531.98
2	Profit before tax	206.63	143.96	686.72	636.33
3	Profit after tax	144.93	115.19	475.17	447.57
4	Total Comprehensive income	145.03	114.98	473.00	448.59

3. Results for the quarter and year ended March 31, 2019 are in compliance with Indian Accounting Standards (IND AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs. The results for the quarter and year ended March 31, 2018 have been restated to comply with IND AS and are comparable on like to like basis.

4. The above is an extract of the detailed format of unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges on April 29, 2019 under Regulation 33 of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the company website, www.reliance mutual.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Reliance Nippon Life Asset Management Limited
Date: April 30, 2019
Place: Mumbai
Nileufer Shekhawat
Company Secretary & Compliance Officer



Haq, ek behtar zindagi ka.
NOTICE - CUM - ADDENDUM

Change in Fund Managers
All investors are requested to note the change in the Fund Managers for the schemes as mentioned below, with effect from May 01, 2019.

Scheme Name	Existing Fund Manager	New Fund Manager
UTI Multi Asset Fund	Mr V Srivatsa	Mr Sanjay Ramdas Dongre
UTI CCF - Investment Plan	Mr Kaushik Basu	Ms Swati Kulkarni
UTI CCF - Savings Plan		
UTI Nifty Exchange Traded Fund		
UTI Sensex Exchange Traded Fund		
UTI Nifty Next 50 Exchange Traded Fund	Mr Kaushik Basu & Mr Sharwan Kumar Goyal	Mr Sharwan Kumar Goyal
UTI S&P BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund		
UTI Nifty Index Fund		
UTI Nifty Next 50 Index Fund		

All other features of the above Schemes remain unchanged.
This addendum No. 05/2019-20 is an integral part of the Statement of Additional Information (SAI) and Scheme Information Documents (SID) / Key Information Memoranda (KIM) of the aforesaid Schemes of UTI Mutual Fund and shall be read in conjunction with the SAI & SID/KIM.

Change in Scheme Provisions - UTI Multi Asset Fund

The scheme is open for purchase/subscription on all business days at the applicable NAV (Net Asset Value).
The following restrictive/limiting clause appearing in the Scheme Information Document (SID) of UTI Multi-Asset Fund stands deleted with immediate effect:-

Restriction on subscription
The Scheme will be open for subscription during each calendar month subject to the condition that not more than 10% of the number of outstanding units allotted as on the last business day of the previous month would be available for the sale in the immediately following month.

However, the UTI AMC reserves the right to collect the subscriptions in excess of the said limit of 10% of the outstanding allotted Units. The excess subscription amount to be collected will be decided by the Fund Manager of the Scheme based on the available investment opportunities in the stock market or the diminishing of such investment opportunities and further, in his opinion, the total subscription has reached an approximate manageable corpus size. All such applications in excess of the aforesaid 10% limit will be accepted for full allotment.
Similarly, the AMC/Trustee may close such additional subscription by giving one day's notice in one daily newspaper and UTI MF website.

However, Subscriptions by way of SIPs/STRIPS will be allowed on all business days at the applicable NAVs (subject to load) even if the said limit of 10% is exceeded. However, subscriptions through online mode will be allowed.

The subscriptions through online mode will not be reckoned for the purpose of determining the 10% limit. Regarding subscription through online mode, refer to Statement of Additional Information (SAI) for details.
For Applications submitted through other than online mode or SIPs/STRIPS, Investors are required to check the Official Points of Acceptance (OPAs) whether the Scheme is open for subscription before submitting their application forms for subscription of Units of the Scheme failing which the UTI MF/UTI AMC shall not be responsible/liable in any manner whatsoever.

All other terms and conditions of the above Scheme shall remain unchanged.
This addendum No. 06/2019-20 is an integral part of the SID / Key Information Memorandum (KIM) of the above scheme and shall be read in conjunction with the SID / KIM.

For UTI Asset Management Company Limited
Sd/-
Authorised Signatory
In case any further information is required, the nearest UTI Finance Centre may please be contacted.


Mumbai
April 30, 2019
Toll Free No.: 1800 266 1230
Website: www.utimf.com
REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gri' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051, Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund). E-mail: invest@uti.com, (CIN-U65991MH2002PLC137867).
For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified UTI Mutual Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum/Investment Form.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



TRANSCORP INTERNATIONAL LTD
Reg. Office: Plot No. 3, NAF Packer, Sec. 18A, Dwaraka, Phase II, New Delhi-110015. CIN: L51909DL1994PLC23697
Web site: www.transcorpint.com, e-mail: info@transcorpint.com, Phone: 91-11-34118101-05, Fax: 91-11-34118105
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 36A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws that the next meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, 17th May, 2019 at Jaipur to consider inter alia, the Audited Financial Results and consolidated for the quarter and financial year ended 31st March 2019 and to consider the matter of recommendation of Dividend on equity shares for the financial year ended 31st March 2019. The Notice is also available at Investor Communication section of the Company's website: www.transcorpint.com and corporate announcement section of www.bseindia.com.
For Transcorp International Limited Sd/- Dilip Kumar Muralidharan Company Secretary
Date: 30.04.2019
Place: Jaipur



MARKTESH TRADING LIMITED
Regd. Office: 612, Devika Tower, 6th Floor, 6, Nehru Place, New Delhi-110019
CIN : L51909DL2005PLC135119
E-mail : shrinashraizadea@gmail.com
Tel/Fax : +91-11-26219944
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Clause 41 of the Listing Agreement, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday the 24th May, 2019 at 4.30 p.m. at its Registered Office to consider and take on record Audited Financial Results of the Company for the quarter & year ended 31st March, 2019.
For Marktesh Trading Ltd, A. Bajoria Director
Place : New Delhi
Date : 30.04.2019



Notice to Investors of IDFC Mutual Fund
Notice is hereby given that the half-yearly unaudited financial results of the schemes of IDFC Mutual Fund for the period ended March 31, 2019 has been hosted on our website at www.idfcmf.com. MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



RELAXO FOOTWEARES LIMITED
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No.-10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085
CIN No. - L74899DL1984PLC019997, Ph. 011-46800600, Fax. 011-46800692
E-mail: ril@relaxofootwear.com. Website: www.relaxofootwear.com
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to applicable Regulation(s) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that meeting of Board of Directors of Relaxo Footweares Limited is scheduled to be held on Friday, 10th May, 2019 at 12:00 noon at Registered Office of the Company at Aggarwal City Square, Plot No.10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 inter-alia:-
1. To consider, review, approve and take on record Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2019.
2. To consider and recommend final dividend, if any, for the Financial Year ended on 31st day of March, 2019, for the approval of shareholders, at the ensuing General meeting.
3. To consider proposal for issue of bonus shares.
The information contained in this notice is also available at our website www.relaxofootwear.com as well as website of the NSE and BSE.
By Order of the Board of Directors
For Relaxo Footweares Limited Sd/- Vikas Kumar Tak Company Secretary
Place: Delhi
Date: 30/04/2019

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST TO SUBMIT RESOLUTION PLAN FOR SAHS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
SAHS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED ("SAHS Lifesciences", "The Company", "Corporate Debtor"), a company incorporated in 2012, is a private limited company and is a fast-growing integrated company, which is in field of - manufacturer of single feed additive to complete concentrate premises. SAHS Lifesciences has grown to become one of the India's largest independent animal nutrition companies, supplying single feed additive to complete concentrate premises. SAHS Lifesciences is dedicated to improving the nutrition of farm animals in a safe environmentally friendly way. To achieve this, the Company provides the highest quality nutrition products, technical support and customer service possible. SAHS Lifesciences is India's first customized premium company.
Corporate Insolvency Resolution Process has been initiated for SAHS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED as per the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC), by an order dated 24 December 2018 of Honourable National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench.
Expression of Interest is hereby invited from Potential Resolution Applicants for submission of a Resolution Plan in accordance with the provisions of the IBC. The eligibility criteria for the Potential Resolution Applicant, format for submission of the Expression of Interest, supporting documents and details required to be submitted with the Expression of Interest, associated detailed terms and conditions and Form G for participating in the process shall be emailed to interested parties on their request emailed at cirp.sahslifesciences@gmail.com / joykumarjain@gmail.com.
Expression of Interest in the prescribed format with annexure as emailed to interested parties is required to reach by 18:00 hours on or before 16 May 2019 in a sealed envelope at below mentioned address through speed post / registered post or by hand delivery. The sealed envelope should be super scribed as "Expression of Interest for SAHS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED" in the name of Joy Kumar Jain, Interim Resolution Professional for SAHS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED, 12 Mousali Avenue, DLF City Phase 3, Gurugram - 122002, Haryana, India. A soft copy of Expression of Interest along with annexure stated above also is required to be mailed to joykumarjain@gmail.com / cirp.sahslifesciences@gmail.com or before 12 May 2019.
It may be noted that the terms and conditions for inviting Resolution Plan is determined with the approval of Committee of Creditors of SAHS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED and may be changed or amended at any stage. Committee of Creditors / Resolution Professional reserves the right to cancel or extend or modify the process and / or reject / disqualify any Resolution Applicant / Expression of Interest / bid / offer at any stage of the bid process without assigning any reason and without any liability.
SD/-
Date: 1 May 2019
Joy Kumar Jain
Interim Resolution Professional for SAHS LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
Registration No. IBB/LA-001/IP-P00134/2017-18/10276

FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the corporate debtor	Sahs Lifesciences Private Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	26th October 2012
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana, India under the Companies Act, 1956
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U15400HR2012PTC047504
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: KHASARA No. 86, NEAR NISHAN PUBLIC SCHOOL, DANIALPUR ROAD, P.O. TIKRI KAILASH, KARNAL - 132001 (HARYANA) Corporate Office and Works: Plot No. 157, Jyoti Kendra, Extension - 3 Near TI College, Habibpur, Greater Noida - 201305 (Uttar Pradesh)
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	Date of order: December 24, 2018 Intimation to IRP: December 24, 2018
7. Date of invitation of expression of interest	1 May 2019
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(b) of the Code is available at:	The eligibility criteria is set out in the detailed invitation of expression of interest, available by sending an email to cirp.sahslifesciences@gmail.com or to joykumarjain@gmail.com
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Norms are set out in the detailed invitation of expression of interest, available by sending an email to cirp.sahslifesciences@gmail.com or to joykumarjain@gmail.com
10. Last date for receipt of expression of interest	16 May 2019
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	26 May 2019
12. Last date for submission of objections to provisional list	31 May 2019
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	10 June 2019
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	31 May 2019
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Will be provided by Resolution Professional to prospective Resolution Applicants who are determined to be eligible as per the process laid down in the detailed invitation of expression of interest.

